

**22<sup>nd</sup> August, 2025**

To The General Manager Department of Corporate Services BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001 <b>Scrip Code: 544253</b>	To The General Manager Department of Corporate Services National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 <b>Symbol: KROSS</b>
--	---

**ISIN: INE006601022**

Dear Sir/Madam,

**Sub: Newspaper Publication – Disclosure under Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015**

Respected Sir/Madam,

With reference to the captioned subject, please find enclosed herewith the newspaper advertisement published in the Financial Express (English edition) and Utkal Mail (Hindi edition) on 22<sup>nd</sup> August 2025, before sending the notice of ensuing Annual General Meeting (AGM) together with the Annual Report to all the members and other stakeholders of the Company in compliance with MCA circulars issued from time to time for convening the AGM through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM).

Please note that 34<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 23<sup>rd</sup> September, 2025 at 11:00 a.m. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM).

Kindly take the same on your record.

Thanking You,

**For Kross Limited**

---

**Debolina Karmakar**  
**Company Secretary and Compliance Officer**  
**Membership No.: ACS 62738****Registered and Corporate Office**

---

*M-4, VI Phase, Gamharia, Adityapur Industrial Area, Jamshedpur - 832108 (India)*  
Phone - +91 7280026478 Website : [www.krosslimited.com](http://www.krosslimited.com)

**BENARES HOTELS LIMITED**

Corporate Identification No. (CIN) : L55101UP1971PLC003480  
Registered Office : Taj Ganges, Nadesar Palace Compound, Varanasi - 221002,  
Tel No. 0542-666001  
Corporate Office: Taj Palace, Sardar Patel Marg, New Delhi – 110021, Phone: 011 6650 3549/3704  
Email: [investor@tajhotels.com](mailto:investor@tajhotels.com) Website: [www.benareshotelslimited.com](http://www.benareshotelslimited.com)

**NOTICE TO SHAREHOLDERS****SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGMNT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES**

SEBI vide Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, has allowed the opening of special window to facilitate the re-lodgement of transfer request of shares held in physical form, lodged prior to April 1, 2019 and rejected /returned due to deficiency in documents. Shareholders who wish to avail the opportunity are requested to submit the necessary documents with the Company's Registrar and Transfer Agent.

Window for re-lodgment	July 7, 2025 to January 6, 2026
Who can re-lodge the transfer requests?	Investors whose transfer deeds were lodged prior to April 1, 2019 and rejected/ returned due to deficiency in documents.
Procedure for re-lodgment of the transfer requests	Submit original transfer documents, along with corrected or missing details to our Registrar and Transfer Agent i.e., MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited).
Postal Address to send original documents:	MUFG Intime India Private Limited (Unit: Benares Hotels Limited) Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, C-1 Block, LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058
For any queries:	• Visit: <a href="https://in.mpms.mufg.com/spclwindow.html">https://in.mpms.mufg.com/spclwindow.html</a> • or raise a service request at <a href="https://web.in.mpms.mufg.com/helpdesk/Service_Request.html">https://web.in.mpms.mufg.com/helpdesk/Service_Request.html</a> • Helpline No. +91 11 4941 1000

The shares that are re-lodged for transfer shall be issued only in demat form.

For Benares Hotels Limited

Date : August 21, 2025  
Place: New Delhi

Vanika Mahajan  
Company Secretary

**SAYAJI HOTELS (INDORE) LIMITED**

CIN: L55209MP2018PLC076125  
Registered Office: H-1, Scheme No. 54, Vijay Nagar, Indore (M.P.)-452010  
Email: [cs@shilindore.com](mailto:cs@shilindore.com), Website: [www.shilindore.com](http://www.shilindore.com), Tel: 0731-4006666

**Intimation Regarding 7<sup>th</sup> Annual General Meeting**

The Seventh Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on **Wednesday, 17<sup>th</sup> September, 2025 at 11:30 A.M. IST** in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business set out in the Notice Calling the AGM.

The Notice of the AGM and the Audited Financial Statements for the Financial Year 2024-25, along with the Board Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereof, will be sent to the members of the company electronically, whose e-mail address is registered with the Company / Depository Participant(s). The Notice of the AGM and the aforesaid documents will also be available on the Company's website at [www.shilindore.com](http://www.shilindore.com) and on the website of BSE Limited ("BSE") [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

**Manner of registering / updating e-mail address**

- For Physical Shareholders** - Please provide scanned copy of request letter and necessary details like Folio No., Name of Shareholder, scanned copy of the Share Certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by e-mail to Company / RTA e-mail id.
- For Demat Shareholders** - Please update your e-mail id & Mobile No. with your respective Depository Participant (DP).
- For Individual Demat Shareholders** - Please update your e-mail id & Mobile No. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-voting & joining virtual meeting through Depository.

**Manner of Casting Vote(s) through e-voting:**

Members can cast their vote(s) on the businesses as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting"). The manner of voting, including voting remotely ("remote e-voting") by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode, and for Members who have not registered their e-mail address has been provided in the Notice of the AGM. Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically during the AGM.

By the Order of the Board  
For Sayaji Hotels (Indore) Limited  
Sd/-

Date: 22.08.2025  
Place: Indore  
Raof Razak Dhanani, Managing Director  
DIN: 00174654

**PYRAMID TECHNOPLAST LIMITED**

CIN: L2812MH1997PLC112723  
Registered Office: Office No. 2, 2nd Floor, Shah Trade Centre, Rani Sati Marg,  
Near W.E Highway, Malad(East), Mumbai, Maharashtra, India, 400097 Tel.: 022-42761500  
Email: [cs@pyramidtechnoplast.com](mailto:cs@pyramidtechnoplast.com) Website: [www.pyramidtechnoplast.com](http://www.pyramidtechnoplast.com)

**INFORMATION REGARDING 27<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")**

Dear Member(s),

Notice is hereby given that the 27<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company is scheduled to be held on Thursday, September 25, 2025 at 11.30 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business items as mentioned in the AGM Notice, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the rules made thereunder ("the Act") and General Circular of Ministry of Corporate Affairs ("MCA") dated September 19, 2024 along with other applicable MCA Circulars (collectively referred as "MCA Circulars"), without the physical presence of the Members at a common venue. Members attending the AGM through VC / OAVM will be considered for quorum under Section 103 of the Act.

Pursuant to MCA Circulars and SEBI Circular dated October 03, 2024, the Annual Report of the Company for the financial year 2024-2025, including the AGM Notice and e-voting instructions, will be sent electronically to all Members whose e-mail IDs are registered with the Company / the Company's Registrar and Share Transfer Agent viz. Bigshare Services Private Limited ("Bigshare") / respective Depository Participant ("DP") unless any Member has requested for a physical copy. The same will also be made available on the website of the Company at <https://pyramidtechnoplast.com>, BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and Bigshare Services Private Limited ("Bigshare") at <https://www.bigshareonline.com>.

A letter providing web-link for accessing the Annual Report will be sent to those Members who have not registered their e-mail ID. To receive the Annual Report including Notice of AGM and e-voting instructions electronically, Members who have not registered their e-mail IDs may note the following for registering the same:

- Those Members who are holding shares are requested to register/update their email addresses with their respective DPs.

Members holding equity shares as on the Cut-Off Date will have an opportunity to cast their votes electronically on the Business Items set forth in the AGM Notice, either through remote e-voting or e-voting at the AGM.

The final dividend of Rs. 0.50/- per equity share of Rs.10/- each, as recommended by the Board of Directors of the Company for the financial year ended March 31, 2025, if declared at the ensuing AGM, will be paid to the eligible Members on or after October 03, 2025. As per Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, Friday, September 12, 2025 is fixed as the Record Date for ascertaining eligibility of Members for the said final dividend. The dividend will be paid electronically to Members who have updated their bank account details. In case of non-availability or non-update of bank account details by Members holding equity shares in demat form, the Company will dispatch demand drafts to such Members at their address registered with the Company/ Bigshare / DPs.

In order to receive direct credit of dividend amount in the bank account

- Members holding equity shares in demat form are requested to update their bank account details with their respective DP.

Pursuant to the Income-tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of Members w.e.f. April 01, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to Members at the prescribed rates as applicable. In this regard, Members are requested to submit relevant documents to the Company as per the detailed communication which has been sent by the Company to Members who have registered their e-mail IDs. The same is also available on the Company's website at <https://pyramidtechnoplast.com/wp-content/uploads/2025/08/Email-Communication-on-TDS-on-Final-Dividend-2024-25.pdf> and the website of the Stock Exchanges.

For Pyramid Technoplast Limited

Sd/-  
Puja Sharma  
Company Secretary & Compliance officer  
ACS: 56982  
Place: Mumbai  
Date: August 21, 2025

**YASH****YASH OPTICS & LENS LIMITED**

(Formerly known as Yash Optics & Lens Private Limited)

Registered Off.: 34 ABC Kandivli Co Op Industrial Estate Ltd, Govt Ind Estate Charkop Kandivli West, NR Maruti Service Centre, Kandivli West, Mumbai, Maharashtra - 400067, India | Tel.: 091 86550 69009 / 91373 74566  
Email: [Investors@yashopticsandlens.com](mailto:Investors@yashopticsandlens.com) | Website: [www.yashopticsandlens.com](http://www.yashopticsandlens.com) | CIN: L36101MH2010PLC205889

**NOTICE TO MEMBERS OF YASH OPTICS & LENS LIMITED REGARDING 15<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) AND E-VOTING INFORMATION**

1. Notice is hereby given that the 15<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of Yash Optics & Lens Limited ("the Company") will be held on Tuesday, 16th September 2025 at #34 ABC Kandivli Co Op Industrial Estate Ltd, Govt Ind Estate Charkop Kandivli West, Near Maruti Service Centre, Kandivli West, Mumbai, Maharashtra, India - 400067 (MH) India, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("LODR Regulations"), read with the General Circulars / Notifications issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "applicable circulars"), to transact the business as set out in the Notice calling the AGM dated Thursday 21<sup>st</sup> August, 2025.

2. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) the Company is offering e-voting facility to all the respected members to enable them to cast their valuable vote on the item of business to be transacted at the meeting.

3. Notice of AGM has been sent on Thursday, 21<sup>st</sup> August, 2025 only through electronic mode to those Shareholders whose email ids are registered with the Company / Depositories / Depository Participants / RTA and appearing as on Friday, 15<sup>th</sup> August, 2025.

4. Shareholders may note that Notice of AGM along with instructions for e-voting are also be available on the Company's website <https://yashopticsandlens.com/annual-report> and on the website of stock exchange at <https://www.nseindia.com>

5. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., Tuesday 09<sup>th</sup> September, 2025 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, voting through ballot form / polling paper at AGM.

6. The Company is providing to its members' facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means ("e-voting"). The Company has engaged the services of Big Share Services Private Limited to facilitate e-voting. Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system available on the website of Big Share Services Private Limited (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. <https://vote.bigshareonline.com>

7. The facility for voting through polling paper shall be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the Meeting through polling paper or Ballot form.

8. A member can opt for only single mode of voting i.e., either through e-voting or by Ballot Form. If a member cast votes by both modes, e-voting shall prevail and vote by Ballot shall be treated as invalid. The members who have cast their vote by remote e-voting/ballot form may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

9. Information and instructions including details of user-id and password relating to voting have been sent to the members through email. Members who do not receive email whose email addresses are not registered with the Company/RTA, may generate login credentials by following the instructions given in the 'Notes' forming part of the Notice convening the AGM.

a. The remote e-voting facility will be available during the following period:

Commencement of remote e-voting : Saturday 13<sup>th</sup> September, 2025 9:00 AM

End of remote e-voting : Monday 15<sup>th</sup> September, 2025 till 5:00 PM

b. The remote e-voting module shall be disabled by Big Share Services Private Limited for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e., Tuesday 09<sup>th</sup> September, 2025 may cast their vote electronically.

**Manner of registering / updating email id with the Company/ Depositories:**

- For Demat shareholders - Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP).
- For Individual Demat shareholders - Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Big Share Services Private Limited through an email [ivote@bigshareonline.com](mailto:ivote@bigshareonline.com) or at the toll-free no.: 08069219070

For YASH OPTICS & LENS LIMITED

Sd/-  
CS Adrata Anil Srivastav  
Company Secretary & Compliance Officer  
Mem No: A73764  
Place: Mumbai  
Dated: 22.08.2025

**SUMEDHA**  
adding values to value

**Sumedha Fiscal Services Limited**  
CIN: L70101WB1989PLC047465  
Regd. Office: 6A, Geetanjali, 8B Middleton Street, Kolkata - 700071  
Email ID: [investors@sumedhafiscal.com](mailto:investors@sumedhafiscal.com)  
Telephone Nos.: 033-2229-8936/6758  
Website: [www.sumedhafiscal.com](http://www.sumedhafiscal.com)

**ATTENTION SHAREHOLDERS****OPENING OF SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGMNT OF TRANSFER REQUESTS FOR PHYSICAL SHARES**

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, to facilitate ease of investing for investors and to secure the rights of investors, a special window has been opened only for re-lodgment of transfer deeds, which were logged prior to the deadline of April 01, 2019 and rejected/ returned/ not attended due to deficiency in the documents/ process/ or otherwise, for a period of six months from July 07, 2025 till January 06, 2026.

During this period, Shareholders can re-lodge the request after rectifying the errors to our RTA - Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd., 23, R. N. Mukherjee Road, 5th floor, Kolkata - 700001 and the securities that are re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the listed Company / RTA, as on date) shall be issued only in demat mode. Due process shall be followed for such transfer-cum-demat requests.

The detailed circular is also available on the website of the Company at <https://www.sumedhafiscal.com/other-related-disclosure/important-circulars-sebi/>

This is the fourth publication issued in relation to the opening of the Special Window, as mandated under the provisions of the aforesaid circular.

For Sumedha Fiscal Services Limited

Dhwani Fatehpuria  
Date : August 21, 2025 Company Secretary & Compliance Officer  
Place : Kolkata Membership No. FCS12817

Powered by  
INFRA.MARKET

**SHALIMAR**  
PAINTS  
SINCE 1902

**SHALIMAR PAINTS LIMITED**

CIN: L24222HR1902PLC065611

Registered Office: Stainless Centre, 4th Floor, Plot No. 50, Sector 32, Gurugram, Haryana 122001  
Corporate Office: Olethia Business Spaces, Plot No. A184 and A185, Road No. 16Z, Opposite Ashar IT Park, Wagle Industrial Estate, Thane, Maharashtra 400604  
Email: [askus@shalimarpaints.com](mailto:askus@shalimarpaints.com); Website: [www.shalimarpaints.com](http://www.shalimarpaints.com); Toll Free: 1800 103 6509

**NOTICE WITH RESPECT TO SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGMNT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES**

Notice is hereby given that the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025 has introduced a Special Window for re-lodgement of transfer requests of physical shares to facilitate ease of investing for investors and to secure their rights in the securities purchased by them.

Pursuant to the said Circular, investors who had submitted transfer requests for physical shares prior to April 01, 2019 (the date from which transfer of securities in physical form was discontinued) and whose requests were rejected or returned due to deficiencies, are now provided an opportunity to re-lodge such transfer requests.

Eligible investors may re-lodge their earlier requests with the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"), Beetal Financial & Computer Services Private Limited along with requisite documents and rectifying deficiency, if any, during the Special Window period of six (6) months i.e. from July 07, 2025 till January 06, 2026. Investors are hereby informed that pursuant to the said Circular, the securities re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the Company/RTA as on date) shall only be issued in demat form after following due process for transfer-cum-demat. Investors may send the documents to the Company or RTA on any of the address given below:

<b>Shalimar Paints Limited</b> Company Secretary & Compliance Officer Olethia Business Spaces, Plot No. A 184 and A 185, Road No. 16Z, Opp. Ashar IT Park Wagle Industrial Estate, Thane (W), Maharashtra 400604. Phone: +91-8178270158, Email: <a href="mailto:askus@shalimarpaints.com">askus@shalimarpaints.com</a>	<b>Beetal Financial &amp; Computer Services Private Limited</b> 'BEETAL HOUSE' 3rd Floor, 99, Madangiri, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi-110062 Tel: 011-42959000, Email: <a href="mailto:beetalrta@gmail.com">beetalrta@gmail.com</a>
---	---

We encourage all investors who previously submitted transfer requests but have not yet received transferred shares due to outstanding deficiencies to take advantage of this Special Window, established for the benefit of investors.

For Shalimar Paints Limited

Sd/-  
Snehal Saboo  
Date: August 21, 2025  
Place: Mumbai  
Company Secretary & Compliance Officer

**BHILWARA TECHNICAL TEXTILES LIMITED**

CIN: L18101RJ2007PLC025502

Registered Office: LN3 Nagar, Mord, Banswara-327001, Rajasthan, India, Tel.: +91-2961-231251-52, 231385  
Corporate Office: Bhilwara Towers, A-12, Sector -1, Noida - 201301 (U.P)  
Phone: +91-120-4390300 (EPABX)  
E-mail: [bttl.investor@lnjbhilwara.com](mailto:bttl.investor@lnjbhilwara.com), Website: [www.bttl.co.in](http://www.bttl.co.in)

**NOTICE OF THE 18<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING OF BHILWARA TECHNICAL TEXTILES LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING /OTHER AUDIO-VISUAL MEANS**

Notice is hereby given that the 18<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of Bhilwara Technical Textiles Limited ("the Company") will be held on **Thursday, 18<sup>th</sup> day of September, 2025 at 2:00 p.m.** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") without physical presence of the members at the venue in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules issued thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 20/2020 dated 5<sup>th</sup> May, 2020 and 9/2024 dated 19<sup>th</sup> September, 2024 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3<sup>rd</sup> October, 2024 read with SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/0155 dated 11<sup>th</sup> November, 2024, along with other applicable Circulars issued in this regard by MCA and SEBI, to transact the business that will be set forth in the Notice of the 18<sup>th</sup> AGM. The venue of the said meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company.

The Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2024-25, will be sent through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant ("DP"). Additionally, the Company will also be sending a letter providing the web-link, including the exact path of Annual Report to those shareholders whose email address is not registered with the Company/DP. Hard copies of full annual report shall be dispatched to those shareholder(s), who requests for the same. The Notice of AGM and Annual Report will be made available on the website of the Company at [www.bttl.co.in](http://www.bttl.co.in), on the websites of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

The Company will be providing facility of remote e-Voting and e-Voting at the AGM to its Members in respect of the businesses to be transacted at the AGM through NSDL. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the **Cut-Off date, Friday, 12<sup>th</sup> September, 2025**, may cast their vote electronically. The remote e-voting period commences on **Monday, 15<sup>th</sup> September, 2025 (9:00 a.m.) and end on Wednesday, 17<sup>th</sup> September, 2025 (5:00 p.m.)**. Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and who have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

Login details for e-voting shall be made available to the members on their registered email address. Member who have not registered their email address/KYC can get the same registered/updated through Registrar and Share Transfer Agent i.e. Beetal Financial & Computer Services Private Limited ("RTA") of the company or their Depository Participant ("DP") and avail remote e-voting facility as well as voting at the AGM as per the manner prescribed in Notice of AGM.

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owner holding shares in dematerialized mode or physical mode, as on the **Cut-Off date, Friday, 12<sup>th</sup> September, 2025**, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM as per the manner prescribed in Notice of AGM.

The above information is being issued for the information and benefit of all Members of the Company and is in Compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circular(s).

**NOTICE OF SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGMNT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES**

In terms of SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 2<sup>nd</sup> July, 2025, the transfer requests of physical share(s) which were rejected and returned to the lodger prior to 1<sup>st</sup> April, 2019 and were not re-lodged before the extended timeline of 31<sup>st</sup> March, 2021, due to deficiency in the documents/process/or otherwise, can be re-lodged after rectifying the errors, for registration of transfer within 6 months i.e. from 7<sup>th</sup> July, 2025 to 6<sup>th</sup> January, 2026 with Registrar and Share Transfer Agents ("RTA"), i.e., Beetal Financial & Computer Services Private Limited ("RTA") of the Company at their office at Beetal House, 3<sup>rd</sup> Floor, 99 Madangiri, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi-110062, Phone No. 011-29961281-83, Email: [beetalrta@gmail.com](mailto:beetalrta@gmail.com).

Transferred Shares will only be issued in demat mode once all the documents are found in order by RTA. The lodger must have a demat account and provide its Client Master List ("CML"), along with the transfer documents and share certificate, while lodging the documents for transfer with RTA. Transfer requests submitted after 6<sup>th</sup> January, 2026 will not be accepted/entertained by the Company/RTA.

By order of the Board

For Bhilwara Technical Textiles Limited  
Sd/-  
Avnish Maurya  
Place: Noida(U.P.)  
Date: 21<sup>st</sup> August, 2025  
Company Secretary and Chief Financial Officer  
M. No. ACS-49392

THE BIGGEST CAPITAL  
ONE CAN POSSESS  
KNOWLEDGE

FINANCIAL EXPRESS

## एक नजर

**टाटा मोटर्स कर्मियों को जल्द मिलेगा बोनस, यूनियन ने की अहम बैठक**

**महेश्वरपुर :** टाटा मोटर्स के कर्मचारियों के लिए जल्द ही बोनस का ऐलान किया जाएगा। इसको लेकर कंपनी प्रबंधन और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के बीच बातचीत जारी है। कर्मियों को उम्मीद है कि टाटा स्टील समेत अन्य कंपनियों की तरह इस बार भी बंपर बोनस मिलेगा। इसी क्रम में यूनियन की पूर्व निर्धारित सूत्रधर कुमर को गोपेश्वर भवन, यूनियन कार्यालय में अगोजित हुई बैठक की अध्यक्षता यूनियन अध्यक्ष प्रशिशु भूपण प्रसाद ने की, जबकि विषय प्रवेश महामंत्री आरके सिंह ने कराया। बैठक में बोनस, प्रशिक्षुओं की बहाली, सेवा स्थायीकरण, लवोहारों से पूर्व लघु वितरण सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष अनिल शर्मा, संयुक्त कार्यकारी अजय भागत, एचएस. सैनी, एसएन. सिंह समेत सभी पदाधिकारी और समिति सदस्य मौजूद रहे। महामंत्री आरके सिंह ने कहा कि यूनियन का प्रमुख उद्देश्य सदस्यों के हितों की रक्षा करना है। प्रशिक्षुओं की बहाली और सेवा स्थायीकरण पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बोनस और वेतन श्रेणी से जुड़ी वार्ताएं समय पर पूरी करना का प्रयास है, हालांकि उचित समझौता न होने की स्थिति में देरी भी संभव है। उन्होंने बताया कि अन्य कारखानों में बोनस पर लगेप्रभंध समिति का चुनाव है और टाटा मोटर्स यूनियन भी पूरी तैयारी के साथ वार्ता में शामिल है। सिंह ने भरोसा दिलाया कि निर्णय मजदूरों के अधिकतम हित में लिया जाएगा। महामंत्री ने कहा कि पूर्णा पुजा 22 सितंबर से शुरू हो रही है, इसलिए प्रयास है कि बोनस समय पर मिल जाए। लेकिन यदि प्रबंधन सहमत नहीं होता है तो थोड़ी देरी संभव है, जिसके लिए कर्मचारियों को तैयार रहना चाहिए। बैठक में अनिल शर्मा, एचएस. सैनी, अजय भागत और एसएन. सिंह ने भी अपने विचार रखे और यूनियन की प्रतिबद्धता दोहराई। संचालन अशोक उपाध्याय ने किया तथा धन्यवाद जाना एसएन. सिंह ने प्रस्तुत किया। बैठक का समापन सामूहिक राष्ट्रगान के साथ हुआ।

**बिष्टुपुर में सिंहभूम  
चेम्बर की वार्षिक  
आमसभा 13  
सितंबर को**

**महामहोदय :** सिंहभूम चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का 74वाँ वार्षिक आमसभा शनिवार, 13 सितंबर को होना तय हुआ है। इसका निर्णय सर्वसम्मति से सत्र 2023-25 की 15वें कार्यसमिति बैठक में लिया गया। यह जानकारी मानद महासचिव मानव केडिया ने दी। मानद महासचिव ने बताया कि एक ट्रस्टी (रिक्त पद), 11 पदाधिकारियों एवं 30 कार्यसमिति सदस्यों का चुनाव होना है। बैठक में आमसभा और चुनाव हेतु निम्नलिखित तथितियों के अनुसार कार्यक्रम, चुनाव पदाधिकारी एवं स्कूटनाईजर तय किये गये हैं—

1. निर्मोनेशन फार्म की उपलब्धता- गुरुवार, दिनांक 28 अगस्त, 2025 से चैम्बर भवन से प्राप्त किये जा सकेंगे।
2. निर्मोनेशन फार्मिलिंग की तिथि- शनिवार दिनांक 30 एवं 31 अगस्त, 2025
3. निर्मोनेशन पेपर्स की जांच-मंगलवार, 02 सितंबर, 2025 को संस्था 7 बजे होगी।
4. संग उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन- गुरुवार, 02 सितंबर, 2025 रात्रि 9 बजे तक।
5. निर्मोनेशन वापस लेने की अंतिम तिथि- बुधवार, 03 सितंबर, 2025 संस्था 7 बजे तक।
6. प्रतियोगी उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन- बुधवार, 03 सितंबर, 2025 संस्था 9 बजे प्रदर्शित की जायेगी।
7. रिमोट ई. वोटिंग हेतु साईट खुलने की तिथि एवं समय- बुधवार 10 सितंबर, 2025 पूर्वाह्न 10 बजे से शुक्रवार, 12 सितंबर, 2025 संस्था 5 बजे तक खुली रहेगी।
8. 74वाँ वार्षिक आमसभा शनिवार, 13 सितंबर, 2025 पूर्वाह्न 9.30 बजे से चेम्बर भवन में।
9. चेम्बर भवन में मतदान (आवश्यकता पड़ने पर) शनिवार, 13 सितंबर, 2025 को आमसभा के पश्चात पूर्वाह्न 11.30 बजे से संस्था 5 बजे तक (आवश्यकता पड़ने पर चुनाव अधिकारी एवं स्कूटनाईजर से समय बढ़ाने का अनुरोध कर सकते हैं) चुनाव पदाधिकारी- (1) आ.के. झुनझुनवाला, (2) पी.एस. सेन, अधिवक्ता, (3) एस.एन. खंडेलवाल, अधिवक्ता, (4) राजेश मित्तल, अधिवक्ता, (5) स्कूटनाईजर सी.पी. एन. शंगारी एवं (2) सी.एस. सीतल ख्येन हैं।

योजनाओं पर कुंडली मार कर बैठा है जमशेदपुर की नगरपालिकाएँ, विस में शासन की चरमरई स्थिति को जोर-शोर से उठाएंगे सरयू राय

**सीएम, डीएम और एसएसपी को और सख्त होकर प्रशासन को सख्त बनाना होगा : विधायक**



## उत्कल मेल संवाददाता

**जमशेदपुर :** जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरजू राय ने कहा है कि वह विधानसभा में राज्य सरकार के शासन व्यवस्था को चरमराई हुई स्थिति का मामला जोर-शोर से उठाएंगे। वह इसका संकेत मुख्यमंत्री को भी एक विशेष अवसर पर दे चुके हैं। श्री राय ने कहा कि वह हेमंत सोरेन से आग्रह कर चुके हैं कि राज्य के विकास के लिए शासन की व्यवस्था को सक्षम, गतिशील और जिम्मेदार बनाया जरूरी है- अन्यथा पूर्व के वनों को तरह अनैसर्गिक वारे हर वर्ष में बजट के माध्यम से और

तीन अनुपूरक बजटों के माध्यम से सरकार अरबों रुपये योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रशासन के सुव्यवस्थापन पर खर्च करती रहेगी लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलेगा। यहां जारी एक बयान में संसदीय कार्य मंत्री जयप्रकाश नारायण ने कहा कि इस बीच उन्हें बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विधिमंडल हिस्सों में भ्रमण करने का मौका मिला। उन्होंने अनुभव किया कि इन राज्यों में शासन की व्यवस्था इतनी तत्पर है कि वहां जनहित के बड़े-बड़े कामों का निर्धारण अवधि में हो जा रहा है। अपने झारखंड में चाहे बड़ी योजनाएं हों या जिला-प्रखंड स्तर की योजनाएं हों, वो पूरा होने का नाम ही नहीं लेती। उन्होंने बताया कि झारखंड विधानसभा का पूरे मानसून सत्र आगामी 22 अगस्त से आरंभ हो रहा है। इसमें 25, 26 और 28 अगस्त के तीन दिनों में विधिमंडल विषयों पर विधायकों को अपना विचार रखने का मौका मिल रहा है। विशेषकर 25 अगस्त को झारखंड सरकार के प्रथम अनुपूरक बजट पर बस के दौरान राज्य सरकार के शासन-प्रशासन तथा योजनाओं के क्रियान्वयन पर विधायकों और पार्टियों के विधायक दल के अध्यक्ष द्वारा

निर्धारित समय के अनुसार अपना सुझाव प्रस्तुत करेंगे। इस प्रारूप ने कहा कि जेम्स डेवुड को का उन्हें विशेष अनुभव हैं। यहां की नगरपालिकाएं योजनाओं पर कुंडली मार कर बैठ जाती हैं। गली-नालाना-नालियों एवं मोहल्लों की सफाई का मामला हो या पेवजल अपूर्ति का, अन्य जन्मुविधाओं का मामला हो या विधवाएं एवं सांसद निधि का, जिला योजना से निर्धारित की गई योजनाओं के क्रियान्वयन का मामला हो या अन्य कोई प्रसंग, इन सभी मामलों में नगरपालिकाओं की स्थिति अत्यंत लचलचर है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। टाटा स्टील की नगर निकायों और सरकार की नगर निकायों में कोई समन्वय नहीं है। हाट-बाजार हों या सुइकों पर टेला-खोमना लगाने की बात हो या फिर विशेष सामाजिक-सांस्कृतिक-मांगलिक कार्यक्रमों को संपन्न कराने की बात हो, हर जगह लचलचल है कि समस्या सुलझाने की बदले घनीभूत होती जा रही है। श्री राय ने बयान में कहा कि योजनाओं के लंबित रहने का अथवा इनकी गुणवत्ता में कमी आने का मुख्य कारण सरकार के सुखदालय स्तर पर और जिला स्तर पर योजनाओं की मॉनिटरिंग तथा इनकी

सर्वांगीण एवं बहुआयामी अनुरक्षण एवं पर्यवेक्षण में हमी होना इसका मुख्य कारण है। वह सत्र में अपने भाषण के दौरान राज्य सरकार, खास कर मुख्यमंत्री को सलाह देगे कि मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) तथा जिला उपायुक्त कार्यालय में योजनाओं की 'मिनिटर्स' की सक्षम व्यवस्था करें और शासन-प्रशासन को नियमानुसार संचालित करना सुनिश्चित करें। सरजू राज्य ने कहा कि पुलिस विभाग में तो ऐसा लगता है कि थाना सत्र पर ही अराजकता फैली हुई है। जब तक मामले को वरिय पुलिस अधीक्षक के सामने नहीं ले जाया जाता, तब तक थाना सत्र पर सही कार्य होना मुश्किल हो गया है। इसका नतीजा है कि कतिपय थाना क्षेत्रों में जुआ, मटका, अवैध शराब, अवैध वसूली और अवैध कार्य करने वालों को महीनलियत देने की होड़ लग गई है। सरजू राज्य ने कहा कि उनके पास कई दिनों से एक विचित्र शिकावत आ रही है कि जमशेदपुर में चलने वाली अवैध गतिविधियों में शामिल व्यवसायियों और संबंधित थानादर के बीच पूर्ववर्ती विद्याक के कार्यकाल में लेन-देन की एक सीमा निर्धारित कर दी गई थी। जबसे वह (सरजू रा?)

विधायक बने हैं, कतिपय थाना क्षेत्रों से रिपार्ट आ रही है कि एकाध थानेदार लोगों के समझौता सीमा से डेढ़ गुणा-दोगुना वसूली अवैध व्यवसाय में लगे लोगों से करने लगे हैं। लोगों ने उनसे अग्रह किया कि वह अपने प्रभाव का उपयोग करके पूर्ववर्ती विधायक के निर्देशानुसार में लेन-देन की जो सीमा निर्धारित की गई थी, उससे अधिक वसूली ऐसे थानेदारों द्वारा नहीं करने दें। जब श्री राय ने कहा कि इस मामले में वह वरीय पुलिस अधीक्षक के सामने उठाएगा, तो पैरवी करने वालों को सांप्रत्यक्ष संशय था। वे कहने लगे कि इस तरीके से तो हम लोगों का धंधा ही बंद हो जाएगा। श्री राय ने कहा कि ऐसा यदि जमझड़ में ही हो रहा है तो राज्य के अध्यक्ष जिलाओं में भी हो रहा होगा। मुख्यमंत्री, जिला उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक को इसका संज्ञान लेकर अपने-अपने स्तर पर शासन की व्यवस्था को अधिकांश सक्षम और जिम्मादार बनाना पड़ेगा ताकि अरबों रुपये के आवंटन से लागू होने वाली योजनाएं सही आकार ले सकें और अवैध गतिविधियों चाहें और चाहें न चाहें वैधता प्राप्त हो पायें।

बिष्टुपुर में मारवाड़ी समाज का पारंपरिक  
त्योहार चतड़ा चौथ सिंधारा महोत्सव 24 को



## उत्कल मेल संवाददाता

**जमशेदपुर :** मारवाड़ी समाज काशी टीह द्वारा मारवाड़ी समाज के भूले हुए पारंपरिक त्योहार चतुर्दा चैथ सिंधार महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह विशेष आयोजन 24 अगस्त रविवार, शाम 4 बजे से 7 बजे तक श्री सत्यनारायण मंदिर ( श्री श्याम मंदिर ), बिस्दुपल, जमशेदपुर में संपन्न होगा। आजकल मारवाड़ी समाज के दर्जन भर संस्थाएं महिलाओं से संबंधित गणगौर का सिंधार हो या फिर सावन का सिंधार

महोत्सव मनाते हैं। किंतु गुणेश चतुर्थी के अवसर पर कुँवर युगओं और नवविवाहित जोड़ों के लिए चतुर्दश चैय सिंधारा वाली प्रंपरा जमशेदपुर के मावाड़ी समाज में प्रायः लुप्त सी होती जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से 8 वर्ष से 25 वर्ष तक के युवाओं एवं नवविवाहित जोड़ों के लिए चतुर्दश चैय सिंधारा महोत्सव समर्पित है। अद्यतन में पारंपरिक सांस्कृतिक रंगों से सजे अनेक आकर्षक कार्यक्रम होंगे, जिनमें गुडुधानी, ढंका, खेल-

26 अगस्त को शहर पहुंचने पर शहीदी नगर कीर्तन का जोरदार स्वागत करने का निर्णय

**जयशंकरपुर** : श्री गुरु तेग बहादुर जी को 350 साला शहादत का समीपत शहदाय नगर एवं बेहतर तरीके से करने के लिए गोला पहाड़ी गुरुद्वारा सरजमान गुरुद्वारा और मुक्तक बतक समन हूँ। जिसमें विषय रूप से सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के जुगसलाई संकट सिंह पेटोल पंप के नजदीक सभी गुरुद्वारा को समूह साध संगत पालतवा जागरी और पांच थारों का स्वागत किया जाएगा। साथ ही स्टॉल लगाकर जलपाव पहाड़ी के प्रधान लाखविंद सिंह उपस्थित गुरुचरण सिंह टीटू महासचिव सविंदर सिंह मलकी सिंह बागबेड़ा के महासचिव बलकर सिंह परसुडी के प्रधान रणजीत सिंह

**एसएसपी कार्यालय के बाहर पुलिस जीप से व**

**जयशंकरपुर** : साकवी स्थित एसएसपी कार्यालय के बाहर गुस्सा कर उस समय अपना-तपरी से ममैक पर मौजूद पुलिस को भी हैरान रह गए और आनन-फानन में जांकारों के पोछे डौल बढ़ाते वत में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जीपी नहीं किया गया है। जांकारों के अनुसार, प्रभारिगिरिप्रिंटर प्रक्रिया जीपी करने के लिए दोनों को एसएसपी कार्यालय लाया गया था, इसी दौरान धूल झोंके हुए जीप से कूदकर भाग निकले। जैसे ही आरोगी भागे, पुलिसकर्मी हड़बड़वृष्ट में समाप्त रही, लेकिन दुसरा आरोगी चक्का चक्कर फरार हो गया। जयशंकरजीयों के गुनाहिक फरार जांकारों मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारों भी सन्नद्ध हो गए, बिस्फुर थापा पुलिस और आर जा रहा है ताकि उस जल्द फकड़ जा सकें। इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली और सुझाव व आरोंपायों का भाग जाना गंभीर लापरवाही है। अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोगी को ज

एसएसपी कार्यालय के बाहर पुलिस जीप से कूदकर भागा चोरी का आरोपी

**जमशेदपुर:** साक्षरता मिथ्या एएसएसपी कर्वालय के बाहर गुस्का को उस समय अन्धरा-तन्त्री से मैके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी हैवान रह गए और आनन-फ़ानन में दोनों के पीछे दौड़ पड़े। बत में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जाना नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार, हिंसाग्रस्तित प्रक्रिया पूरी करने के लिए दोनों को एसएसपी कर्वालय लाया गया था, इसी दौरान घुल झाँकते हुए जी से कूटकर भाग निकले। जैसे ही आरोपी भागे, पुलिसकर्मी हड़बड़हट में सम्पन्न रहे, लेकिन दूसरा आरोपी चक्का देकर फरार हो गया, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चरम जानकारी मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी भी सक्रिय हो गए, बिस्फुर थापा पुलिस और आजाह रहे है ताकि उसे जल्द पकड़ जा सके। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी प्रभावित कर दिया है। आरोपियों का भाग जाना अभी लापरवाही है, अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपी को जल्द पकड़ लिया जायेगा।

## जमशेदपुर दुर्गा पूजा केन्द्रीय पर हुई विस्तृत चर्चा, प्रशा

### उत्कल मेल संवाददाता

**जमशेदपुर:** जमशेदपुर दुर्गा पूजा केन्द्रीय समिति की कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक भालुबासा स्थित एक होटल में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष अचिंतम गुप्ता ने की। सर्वप्रथम अध्यक्ष ने सभी सदस्यों का अभिवादन किया और आगे की कार्यवाही के लिए महासचिव को निर्देशित किया। महासचिव आशुतोष सिंह ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा आषा-व्यस का विवरण प्रस्तुत करने हेतु अकेलक प्रदीप दास को आमंत्रित किया। श्री दास ने विगत वर्ष का आय-व्यय विवरण प्रस्तुत किया, जो निम्न प्रकार था। बैठक में विगत वर्ष की दुर्गा पूजा से मिले अनुभवों और इस वर्ष की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। सभी सदस्यों ने स्वीकार किया कि पिछले वर्ष समिति को कार्यकारणी के सभी सदस्यों का अनुभवपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ था। इस वर्ष अधिक वर्षों के कारण चुनौतियाँ बढ़ गई हैं, कई स्थानों पर पूजा स्थल पलूय योग नहीं है, सूझकों की स्थिति दयनीय है तथा विसर्जन घाटों की चिन्हित कर मरम्मत की आवश्यकता है। समिति ने इस पर तुरंत कार्यवाही कर आशुतोष सिंह को बल दिया। जिला प्रशासन द्वारा पिछले वर्ष दिए गए सहयोग की सराहना की गई तथा आशा व्यक्त की गई कि इस वर्ष भी प्रशासन सहयोग प्रदान करेगा। बैठक में श्री निरंज्य हुआ आ विसर्जन घाटों में स्वर्णरेखा घाट, वेली बोधन घाट और बड़ौदा घाट की समस्याओं को अभी से जिला प्रशासन के संज्ञान में लाया जाए ताकि समय रहते समाधान किया जा सके। बढ़ती हुई समितियों की संख्या को देखते हुए नए घाटों के निर्माण की



जमशेदपुर दुर्गा पूजा केन्द्रीय समिति की कार्य समिति की बैठक में भाग ले रहे लोग



आवश्यकता पर भी विचार हुआ। बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि इस वर्ष 13 अलग पूजा समितियों ने केन्द्रीय समिति की सदस्यता ग्रहण की है। साथ ही, माना जा रहा है कि आगामी निर्माण से प्रभावित पूजा समितियों के स्थल के समाधान हेतु प्रशासन से वार्ता की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। चूँकि इस वर्ष पूजा के दौरान वर्षा की संभावना जताई गई है, इसलिए पूजा पर रहन चिंता करने की बात थी। इसी अनुसूच करने की हवा कही गई। प्रत्येक जोन के पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र की पूजा समितियों के साथ संपर्क कर उनकी समस्याओं को जानने और उनके समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया। बैठक में यह भी तय हुआ कि आगामी 23 अगस्त को आयोजित होने वाली बैठक में शहर की सभी दुर्गा पूजा समितियाँ भाग लेंगी। समस्याओं को लेकर समिति का प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही जिला प्रशासन से संपर्क कर उन्हें अवगत करायें। बैठक में

पद्मनाभसिंह ने सुझाव दिया कि पूजा की तैयारियों से संबंधित जिला प्रशासन एवं सरकार के सभी निर्देश समय से अतिमित्रता के साथ पट्टा चला दिए जाएं। सौ आगंतुकों में अक्सर जगजगत् की स्थिति उत्पन्न न हो। बैठक का समापन कार्यकारी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। बैठक में उपाध्यक्ष अशोक सिन्हा, परमात्मा मिश्रा, गौतम प्रसाद, चमनदीप तिवारी, धर्मेन्द्र प्रसाद, सोरोजक प्रमोद तिवारी, सामन्तनो कुमार, असित चक्रवर्ती, अर्जुन शर्मा, पी. एस्. माथुर, सुमोजित चौधरी, सचिव अभिषेक कुमार, ओमोयो ओझा, शंभू मुखी, रूद्र प्रताप, जितेंद्र कुमार, शिव शंकर सिंह, संतोष कुमार, राघवेंद्र मिश्रा, संतोष कुमार सिंह, रवि भुइया, सुमित शर्मा, राम प्रसाद जायसवाल, अपूर्व पाल, सपन दास, तिलक कुमार दास, शैलेश गुप्ता, मिथुन कुमार, सुनील देवू का, सतीश मुखी, प्रमोद सिंह, इंद्रजीत सिंह, दिनेश वर्मा एवं सपन सरकार मुख्य रूप से मौजूद रहे।

## नई कार की जगह पेंट की हुई गाड़ी बेचने पर एसएल मोटर्स पर 2 लाख का जुमाना

**महत्वपूर्ण :** उपभोक्ता से थोखाघड़ी के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिष्ठान अयोग, पश्चिमी सिंहभूम ने एएसएल मोटर्स (अतिरिक्त और चाईबासा) तथा उसके सब-डीलर को दोषी करार देते हुए 2 लाख रुपये का जुमाना लगाया है। मामला चाईबासा के पुलहातु निवासी दीपक कुमार ठाकुर की शिकायत पर सामने आया। दीपक कुमार ठाकुर ने 27 जून 2024 को अयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। उनका आरोप था कि 6 दिसंबर 2023 को उन्होंने टाटा नेक्सास स्मार्ट प्लस एसपी मॉडल की बुकिंग की थी, लेकिन डिलीवरी के समय उन्हें ऐसी गाड़ी दी गई जिसमें दरवाजों पर री-पेंटिंग, जंग लगे हिस्से और गियर सिस्टम में खराबी थी। इस सुनावली के बाद अयोग ने पाया कि उपभोक्ता को बुक किए गए मॉडल से अलग और खराब स्थिति वाली कार दी गई। इसे अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए अयोग ने एएसएल मोटर्स को दोषी ठहराया। अयोग ने अपने फैसले (19 अगस्त 2025) में निर्देश दिया कि कंपनी 45 दिनों के भीतर उपभोक्ता को 2 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दे। निर्धारित समय में भुगतान न करने की स्थिति में कंपनी को इस राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। महत्वपूर्ण तथ्य- शिकायतकर्ता दीपक कुमार ठाकुर (पुलहातु, चाईबासा) के रहने वाले हैं। वाहन टाटा नेक्सास स्मार्ट प्लस एसपी मॉडल, शिकायत दर्ज 27 जून 2024, अयोग का फैसला 19 अगस्त 2025, क्षतिपूर्ति 2 लाख रुपये (45 दिनों में भुगतान) सहित अतिरिक्त प्रावधान समुचित न होने पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।

## बमार्माइन्स में अलकतरा सड़क मरम्मत कार्य प्रारंभ

[illegible]

**आज 19 पचायता  
में होगा विशेष  
बैंकिंग शिविर का  
आयोजन**

**मुख्यशेखर** : पूर्वी सिंहभूम जिला के 19 पंचायतों में 22 अगस्त शुक्रवार को वित्तीय समावेशन संतुष्टि अभियान के तहत विशेष बैकिंग शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य पंचायत स्तर पर नागरिकों को बैकिंग सेवाओं से जोड़ना तथा सामाजिक सुक्ष्म योजनाओं में अधिकतम पंजीकरण सुनिश्चित करना है। शिविर के माध्यम से प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधान ज्योति बीमा योजना, सुक्ष्म बीमा योजना, अल्ट्रा पेंशन योजना में पंजीकरण किया जाएगा। साथ ही री-कंवाईसी नामिनी अपडेट हैरी जर्नी ऑफ़ अलावा, डिजिटल लेन-देन, साइबर सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। निम्नलिखित पंचायतों में अतिथि आयोजित किए जाएंगे- बागबेड़ा (मध्य), बोड़ाम, कुमरागोल, ग्वालाकाटा, मरियाबांधी, घाटशिला, भूतिया, सोनानाहाट, फरिस्ट ब्लॉक, करडूबा, मुराकटी, कश्मार, कोताडीह (पूर्व), बायगबिल, सरजामदा (दक्षिण), धोबनी, गोपालपुर, हलुदबनी (ईस्ट), ग्वालाकाटा। सभी पंचायत उप प्रतिनिधियों और आम नागरिकों से अपील है कि वे इन शिविरों में भाग लें और दूसरों को भी भाग लेने के लिए प्रेरित करें, ताकि अधिक से अधिक लोग पंचायत स्तरीय शिविर का लाभ उठा सकें।

[illegible]**क्रॉस लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय: एम4, फेज 6, आदित्यपुर, औद्योगिक  
गमहरिया, जमशेदपुर, झारखंड - 832108,  
फ़ोन: 7280026478, वेबसाइट: [www.krosslimite.com](http://www.krosslimite.com)  
ईमेल आईडी: [cs@krossindia.com](mailto:cs@krossindia.com)

क्रॉस लिमिटेड की 34वीं एजीएम वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग)/  
ओएवीएम (अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम) के द्वारा  
आयोजित करना

- सं. 14/2024/सीआईआर क्या जाता है कि कोपरट कोय मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. तद्वि. 2020/2020 दिनांक 6 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अगस्त, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022, 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022, 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 एवं 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 और सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमपी/1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमपी/2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमपी/2/ सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022, सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 और सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 के अनुगलन में सूचना में निष्पत्ति साधारण और विषय कामकाज के निष्पादन के लिए आपा स्थल पर सदस्यों की भीतिक उपस्थिति के बिना एपीएम आधारित करने की अनुमति अनुसार कॉस लिमिटेड ("कंपनी") की 34वीं वार्षिक आम बैठक (वार्षिक) मंगलवार, 12 सितंबर, 2025 को प्रातः 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (एवीएम) के द्वारा आयोजित की जाएगी।
2. उर्ध्वत पत्राचार के अनुगलन में वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एपीएम की सूचना की प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेजी जाएंगी जिनके ईमेल पते डिवायसिटी प्रभागियों के पास पंजीकृत हैं। डीमेटरियलाइज्ड मोड में बंधे रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर अपना डिवायसिटी प्रभागियों के माध्यम से संबंधित डिवायसिटी के पास पंजीकृत कराएं।
3. एपीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट: [www.krossinlimited.com](http://www.krossinlimited.com) स्टिक एक्सेसजो की वेबसाइट अर्थात् बीएसई ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) और नेगलन स्टॉक एक्सेसजो ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) और एफएसडीएल की वेबसाइट: [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध होगी।
- हालांकि, यदि सदस्यगण चाहें तो [investors@krossinindia.com](mailto:investors@krossinindia.com) पर अनुरोध भेजकर कंपनी से सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भीतिक प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं।
4. सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एपीएम की सूचना में बताए गए अनुरोधों के व्यवहारों पर रिपोटडी अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। डीमेटरियलाइज्ड मोड, भीतिक मोड में शेष रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं उनके लिए रिपोटडी वोटिंग का तरीका सदस्यों को सूचना में प्रदान किया जाएगा।
5. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रवर्तकता अवधारणाएँ) (तृतीय प्रशोधन) विनियम 2024 दिनांक 12 दिसंबर, 2024 के अनुसार, वैबलिक प्रशोधन करने वाला एक पत्र जिसमें वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध करने का सही पथ शामिल होता है। ऐसे शेषधारकों को भेजा जाएगा जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है।
- सदस्यों से अनुरोध है कि वे 34वीं एपीएम की सूचना, एपीएम में शामिल होने के निर्देश, रिपोर्ट-2-वोटिंग और/या एपीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

कृत क्रॉस लिमिटेड  
हस्ता./-  
देबोलीना कर्माकर  
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी  
गणेशगंगा रोड, पानीपहा 602208

कृते क्रॉस लिमिटेड  
हस्ता./-  
देबोलिना कर्माकर  
मनुपालन अधिकारी  
पं. एसीएमए ६०३३८

तैथि: 22.08.2025  
 स्थान: जमशेदपुर